



July 20, 2024

**BSE Limited**

Corporate Services Department  
Phiroze Jeejeeboy Towers,  
Dalal Street, Mumbai-400 001

**Scrip Symbol:** QUINT

**Scrip Code:** 539515

**Subject:** Newspaper advertisement for the Meeting of the Equity Shareholders of Quint Digital Limited pursuant to the Order of the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench, in the matter of Scheme of Arrangement amongst Quintillion Media Limited ("QML" or "Transferor Company") and Quint Digital Limited ("QDL" or "Company" or "Transferee Company") and their respective shareholders and creditors ("Scheme")

**Reference:** Intimation under Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

---

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, ("Listing Regulations") please find enclosed copies of newspaper advertisement for convening the Meeting of the Equity Shareholders of Quint Digital Limited pursuant to the Order dated July 11, 2024, by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Delhi Bench ("NCLT"), for the purpose of considering, and if thought fit, approving Scheme of Arrangement for the amalgamation (by way of absorption) of Quintillion Media Limited ("QML" or "Transferor Company") with and into Quint Digital Limited ("QDL" or "Company" or "Transferee Company") and their respective shareholders and creditors ("Scheme") in accordance with Section 230-232 read with Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), which is scheduled to be convened on Saturday, August 24, 2024, at 11:00 A.M through Video Conferencing, published in "Financial Express" (English Newspaper) and "Jansatta" (Hindi Newspaper) on July 20, 2024.

This intimation will also be hosted on the website of the Company i.e. [www.quintdigitalmedia.com](http://www.quintdigitalmedia.com).

We request you to take the above information on record.

Yours sincerely,  
**For Quint Digital Limited**

**Tarun Belwal**  
Company Secretary & Compliance Officer  
M. No. A39190

**Enclosed:** As above

---

## **QUINT DIGITAL LIMITED**

*(formerly known as Quint Digital Media Limited)*

**Registered Office:** 403 Prabhat Kiran, 17, Rajendra Place, Delhi- 110008 Tel: 011 45142374

**Corporate Office:** Carnoustie Building, Plot No. 1, 9th Floor, Sector 16A, Film City, Noida-201301 Tel: 0120 4751818

**Website:** [www.quintdigitalmedia.com](http://www.quintdigitalmedia.com), email: [cs@thequint.com](mailto:cs@thequint.com), CIN: L63122DL1985PLC373314

**COMFORT INTECH**  
CIN: L74110DD1994PLC001678  
Registered Office: 106, Avkar Algnai Nagar, Kataria, Daman, DD 396210;  
Corporate Office: A-301, Hetal Arch, Opp. Natraj Market, S. V. Road, Malad (West), Mumbai-400064.  
Tel. No.: +91-22-6894-6500/08/09; Fax: +91-22-2889-2527;  
Email: info@comfortintech.com; Website: www.comfortintech.com

**NOTICE TO SHAREHOLDERS REGARDING TRANSFER OF EQUITY SHARES OF COMFORT INTECH LIMITED TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND**  
&  
**REMINDER TO CLAIM THE DIVIDEND AMOUNTS REMAINING UNPAID/UNCLAIMED**

NOTICE is hereby given pursuant to section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as amended from time to time, that the Company is required to transfer the dividend amounts remaining unclaimed and unpaid for a continuous period of seven (7) years from the date of transfer of such amount to Unpaid Dividend Account to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). Further, section 124(6) of the Act read with the Rules requires that all shares, in respect of which dividend has not been claimed and remaining unpaid for seven consecutive years or more, shall be transferred by the Company to the IEPF along with statement containing such details as prescribed.

NOTICE is hereby given to the eligible equity shareholders to en-cash their unpaid/unclaimed dividend amounts for the financial year 2016-17 and onwards, so that the equity shares are not transferred to IEPF. In compliance with the Rules, individual correspondence to all the shareholders whose shares are liable for transfer to IEPF Authority will be sent by the Company. In case, no communication is received from such shareholders on or before **October 21, 2024** in respect of unclaimed and unpaid dividend amounts for the financial year 2016-17, the Company will have to transfer such unclaimed and unpaid dividend amounts and underlying equity shares, if any, in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, to the IEPF following the procedures stipulated in the Rules in this regard, without any further notice. The details of eligible equity shareholders whose shares are due for transfer to the IEPF is uploaded on the website of the Company at [www.comfortintech.com](http://www.comfortintech.com).

Please note that **no claim shall lie against the Company in respect of dividend amounts and equity shares transferred to the IEPF and all benefits accruing on such shares, if any.**

Further, the shareholder can claim the dividend amounts and shares which are transferred to IEPF from the IEPF Authority by complying with the provisions of Rule 7 of the Rules by making a separate application to the IEPF Authority in e-Form IEPF-5 details of which are available on the website of the IEPF Authority at: [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in).

For further information on the above matter and the details of the claim on unpaid/unclaimed dividend amounts, the eligible equity shareholders may contact our Registrar and Share Transfer Agent, i.e., Bigshare Services Private Limited at Office No S6-2, 8<sup>th</sup> Floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahabai Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Contact: +91-22-62632000; Email: [investor@bigshare.com](mailto:investor@bigshare.com) may also write to Company at the Corporate office of the Company situated at A-301, Hetal Arch, S. V. Road, Malad (West), Mumbai-400064 or send an email to [info@comfortintech.com](mailto:info@comfortintech.com).

For Comfort Intech Limited  
Sd/-  
Ankur Agrawal  
Director  
DIN:06408167

Place: Mumbai  
Date: July 20, 2024

**SALE NOTICE**

**AGRON INDIA LIMITED (IN LIQUIDATION)**  
LIQUIDATOR: MR. SANJAY SHRIVASTAVA  
Liquidator's address: 144-B, 14th Floor, Mittal Court, Nariman Point, Mumbai 400021.  
Email: [agronindia@aaainsolvency.com](mailto:agronindia@aaainsolvency.com)  
[assetsale1@aaainsolvency.in](mailto:assetsale1@aaainsolvency.in), [casanjayshrivastava@aaainsolvency.com](mailto:casanjayshrivastava@aaainsolvency.com)  
Mobile: Mr. Savan Saxena: 7048867543/8460180580

**E-AUCTION**  
Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016  
Date and Time of E-Auction: 23/08/2024 between 03.00 pm to 05.00 pm  
(With unlimited extension of 5 minutes each)  
Last date for submission of EMD and documents: 21/08/2024 by the end of the day.

Sale of asset owned by Agron India Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench vide order dated 13th July, 2023. The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform <https://aa.auctiontiger.net>

Asset	Reserve Price (In Rs.)	Initial EMD Amount (In Rs.)	Incremental Value (In Rs.)
Fiat No. 301 on 3rd Floor of the Building 'Rajveer Royals' (Formerly Known as Rasal Plaza) constructed on Plot Bearing City Survey Nos. 135, 136, 137, 139 and Corresponding Survey No. 73 At Andheri-Ghatkopar Link Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 093.	4,60,00,000/-	46,00,000/-	5,00,000

**Important Note:** It is clarified that, this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and / or not to accept and / or disqualify any interested party / potential investor / bidder without assigning any reason and without any liability.

As per the Paragraph 12 of Schedule I of IBI (Liquidation Process), Regulations, 2019, "On the close of the auction, the highest bidder shall be invited to provide balance sale consideration within ninety days of the date of such demand; Provided that payments made after thirty days shall attract interest at the rate of 12%; Provided further that the sale shall be cancelled if the payment is not received within ninety days."

**Inspection:** Interested parties will have to take prior appointment via email by providing the details as mentioned in the process documents for bidders to be eligible to participate in the auction. They will also have to provide the name, KYC and Authorization Letter in favor of **not more than two persons** who will visit the premises for inspection. On receipt of the mail and after verification of the documents, the liquidator's team will give an appointment to the interested bidder for inspection and the interested bidder must be present on the appointed date at the appointed time. It must be noted that no walk-in requests will be entertained. No inspection would be granted after 21st August, 2024.

The E-Auction will be conducted strictly on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" "WHATEVER THERE IS BASIS" and "WITHOUT RECOURSE BASIS" through approved service provider MIS E-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger). All the terms and conditions of the auction are mentioned in a detailed document available at <https://insolvencyandbankruptcy.in/public-announcement/> and at the website of the e-auction service provider: <https://aa.auctiontiger.net>.

SANJAY SHRIVASTAVA  
Liquidator in the matter of Agron India Limited (in Liquidation)  
IBBI Regn No.: IBB/PA-001/IP-P-01528/2018-2019/12425  
Address: 144 B, 14th Floor, Mittal Court, Nariman Point, Mumbai 400021  
Date: 19/07/2024  
Email: [agronindia@aaainsolvency.com](mailto:agronindia@aaainsolvency.com),  
Place: Nagpur [assetsale1@aaainsolvency.in](mailto:assetsale1@aaainsolvency.in), [casanjayshrivastava@gmail.com](mailto:casanjayshrivastava@gmail.com)

**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI BENCH COMPANY APPLICATION NO. C.A. (CAA)-60/ND/2024**  
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013;  
AND  
IN THE MATTER OF SECTIONS 230 TO 232 READ WITH SECTION 66 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013;  
AND  
IN THE MATTER OF THE SCHEME OF ARRANGEMENT BETWEEN  
QUINTILLION MEDIA LIMITED (FIRST APPLICANT COMPANY/ TRANSFEROR COMPANY)  
AND  
QUINT DIGITAL LIMITED (SECOND APPLICANT COMPANY/ TRANSFEREE COMPANY)  
AND  
THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS  
**ADVERTISEMENT OF NOTICE OF MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF QUINT DIGITAL LIMITED**

Notice is hereby given that by an Order dated July 11, 2024, (date of pronouncement), the New Delhi Bench of the National Company Law Tribunal ("NCLT") in Company Application No. CA (CAA) No. 60/ND/2024 ("Order") has directed that a meeting to be held of the Equity Shareholders of Quint Digital Limited for considering, and if thought fit, approving with or without modifications, following resolution for approving the Scheme of Arrangement for the amalgamation (by way of absorption) of Quintillion Media Limited ("QML" or "Transferor Company") with and into Quint Digital Limited ("QDL" or "Company" or "Transferee Company") and their respective shareholders and creditors ("Scheme") in accordance with Section 230-232 read with Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013.

In pursuance of the said Order and as directed therein, notice is hereby given that a meeting of the Equity Shareholders of Quint Digital Limited will be held through Video Conferencing with the facility of remote e-voting and e-voting on Saturday, August 24, 2024, at 11:00 A.M. (IST) at which time the said Equity Shareholders are requested to attend.

**Please note the following:**

- The above-mentioned meeting is being held through Video Conferencing with the facility of remote e-voting and e-voting in terms of the Order passed by the Hon'ble NCLT, the Guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the relevant provisions of the Companies Act, 2013, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and other applicable provisions, if any.
- The notice of the above-mentioned meeting along with explanatory statement and requisite annexures have been sent to all Equity Shareholders of the Transferee Company whose names appear in the register of members maintained by the Company/ Depositories/ Registrar and Transfer Agent as on July 12, 2024. The notices have been sent via email on July 19, 2024, whose email address are registered with the Company/ Depositories/ Registrar and Transfer Agent and by registered post on July 19, 2024, whose email addresses are not registered.
- A copy of the said notice along with the explanatory statement and related annexures including the Scheme is made available on the website of the Company at <https://quintdigitalmedia.com> and on the website of the Central Depository Services (India) Ltd (the "CDSL") i.e. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and at the relevant sections of the website of the BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)).
- Voting may be made through remote e-voting which will be available during the prescribed time period before the meeting as given below and through e-voting platform which will be available during the meeting.

<b>Commencement of remote e-voting</b>	Wednesday, August 21, 2024 at 9:00 A.M. IST
<b>End of remote e-voting</b>	Friday, August 23, 2024 at 5:00 P.M. IST

The detailed instructions pertaining to remote e-voting, e-voting on the date of the meeting and attending the meeting through Video Conferencing are provided in the notice of the meeting.

All grievances connected with the facility for e-voting may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) or call at toll free no. 1800 225533.

Copy of the said notice, explanatory statement and Scheme of Arrangement along with requisite annexures can be obtained free of charge at the registered office of Quint Digital Limited at 403, Prabhakar Kiran, 17 Rajendra Place, New Delhi - 110 008, India between Monday to Friday between 9:00 A.M. to 5:00 P.M., up to the date of the meeting or by email to the authorized representative of Quint Digital Limited at [cs@thequint.com](mailto:cs@thequint.com).

Since the meetings of the Equity Shareholders of the Transferee Company is being held through Video Conferencing with the facility of remote e-voting, therefore, the facility of appointment of proxies will not be available for the meeting.

The Hon'ble NCLT has appointed Mr. Vishwajeet Singh, as the Chairperson and Mr. Nikhil Pali, Advocate as the Scrutinizer for the aforesaid Meeting. The abovementioned Scheme, if approved by the Meeting, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble NCLT.

Sd/-  
Vishwajeet Singh  
Chairperson of the Meeting

Dated this 19 day of July 2024

**WALWHAN RENEWABLE ENERGY LIMITED**  
C/o The Tata Power Company Limited, Corporate Center B, 34 Sant Tukaram Road, Carnac Bunder, Mumbai - 400009, Maharashtra, India  
CIN: U40103MH2009PLC197021

**EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>th</sup> JUNE, 2024**

Sl. No.	Standalone	Quarter ended		Year ended	
		30-Jun-24	31-Mar-24	30-Jun-23	31-Mar-24
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
a.	Total Income from Operations	103.93	108.21	106.59	402.68
b.	Profit / (Loss) Before Exceptional Items and tax	62.04	85.13	52.21	217.73
c.	Profit / (Loss) Before Tax	62.04	85.13	52.21	217.73
d.	Net Profit / (Loss) for the period / year	46.10	60.59	38.85	159.12
e.	Total Comprehensive Income	46.10	60.85	38.85	159.38
f.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value: ₹ 10/- per share)	611.36	611.36	611.36	611.36
g.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1,997.59	1,951.49	1,830.96	1,951.49
h.	Securities Premium Account	1,108.54	1,108.54	1,108.54	1,108.54
l.	Net worth	2,605.01	2,558.91	2,438.38	2,558.91
j.	Outstanding Debt	3,708.28	3,308.76	3,134.67	3,308.76
k.	Earnings Per Equity Share (of ₹ 10/- each) (In ₹)				
(i)	Basic Earning Per Share - (In ₹)	0.75	0.99	0.64	2.60
(ii)	Diluted Earning Per Share - (In ₹)	0.75	0.99	0.64	2.60
l.	Debt Equity Ratio (in times)	1.42	1.29	1.28	1.29
m.	Debt Service Coverage Ratio (in times)*	1.19	1.30	1.13	1.12
n.	Interest Service Coverage Ratio (in times)*	1.90	2.25	1.80	1.81
o.	Current Ratio (in times)	1.61	0.89	1.14	0.89
p.	Long Term Debt to Working Capital (in times)	2.09	14.70	10.03	14.70
q.	Current Liability ratio (in times)	0.38	0.08	0.12	0.08
r.	Total Debts to Total Assets (in times)	0.56	0.54	0.54	0.54
s.	Debtors' Turnover ratio (in number of days)	186	177	353	301
u.	Operating margin (%)	59.98%	67.39%	64.49%	61.85%
l.	Net Profit Margin (%) including exceptional item	44.36%	55.99%	36.45%	39.52%

**Notes:**

- The above results were reviewed by the Audit Committee on 18<sup>th</sup> July, 2024 and approved by the Board of Directors at its meeting held on 18<sup>th</sup> July, 2024.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the Stock Exchange website [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the Company's website at <https://www.tatapowerrenewables.com/wrel/corporate-announcements.html>
- For other line items referred in Regulation 52(4) of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange and can be accessed on URL [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

\* In Case of quarterly numbers, Ratios have not been annualised.

For and on behalf of the Board of  
**WALWHAN RENEWABLE ENERGY LIMITED**  
Deepesh Nanda  
Chairman  
DIN 03151401

Date: 18<sup>th</sup> July, 2024  
Place: Mumbai

**INFIBEAM AVENUES LIMITED**  
[CIN: L64203GJ2010PLC061366]  
Registered Office: 28<sup>th</sup> Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road-5C, Zone-5, GIFT CITY, Gandhinagar - 382 355, Gujarat  
Tel: +91 79 67772204; Fax: +91 79 67772205 Email: [ir@ia.ooo](mailto:ir@ia.ooo); Website: [www.ia.ooo](http://www.ia.ooo)

**NOTICE OF THE 14<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 14<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Infibeam Avenues Limited ("the Company") will be held on Wednesday, August 14, 2024 at 11:00 AM IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio -Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. The Company has dispatched the Annual Report for the Financial Year 2023-24 along with the Notice convening AGM through electronic mode on July 19, 2024 only to the Members whose email addresses are registered with the Company and/or Depositories and/or RTA in compliance with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with other relevant circulars including Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and relevant circulars including Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter referred to as "Circulars"). The Annual Report for the Financial Year 2023-24 along with the Notice convening the AGM is also available on the website of the Company at [www.ia.ooo](http://www.ia.ooo) and also on website of the BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at [www.evoting.nsd.com](http://www.evoting.nsd.com).

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with applicable rules made there under and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Company has fixed Wednesday, August 07, 2024 as "Record date" for the purpose of 14<sup>th</sup> AGM of the Company and determining entitlement of Members for receiving Final Dividend of Rs. 0.05/- per Equity Share of Re. 1/- each (i.e. 5%) for the Financial Year 2023-24, if approved at the ensuing AGM. The Dividend will be paid on or before September 12, 2024, to the members whose names appear in the Company's Register of Members as on the Record date through electronic/other modes as applicable.

Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s). In respect of shares held in physical form, Members may register their e-mail id by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), Alankit Assignments Limited, at mail id [rtat@alankit.com](mailto:rtat@alankit.com) or send duly filled Form ISR-1 available at <https://www.ia.ooo/advance-to-shareholders> to the RTA office at 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055.

As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is providing its members the facilities to cast their vote on all the resolutions set forth in the said Notice using electronic voting system ("e-voting") provided by NSDL. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares held in the Paid Up Equity Share Capital of the Company as on Wednesday, August 07, 2024 ("cut-off date"). The details as required under relevant provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under are given herein below:

1	Date & Time of commencement of Remote e-voting	9:00 a.m. on Saturday, August 10, 2024
2	Date & Time of end of Remote e-voting	5:00 p.m. on Tuesday, August 13, 2024
3	Cut-off date for determining rights of entitlement of Remote e-voting	Wednesday, August 07, 2024
4	Those persons who have acquired shares and have become Members of the Company after emailing of notice of AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members of the Company/ in the statement of beneficial owners maintained by depositories as on cut-off date can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the said Notice of AGM.	
5	Remote e-voting shall not be allowed beyond	5:00 p.m. on Tuesday, August 13, 2024
6	E-voting facility will be available during AGM. Members, who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may remain present at AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again during AGM.	
7	In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of <a href="http://www.evoting.nsd.com">www.evoting.nsd.com</a> or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> .	

For Infibeam Avenues Limited  
Sd/-  
Shyamal Trivedi  
Sr. Vice President & Company Secretary

Place: Gandhinagar  
Date : July 19, 2024

**SAGAR CEMENTS LIMITED**  
CIN: L26942TG1991PLC002887  
Regd. Office : Plot No. 111, Road No. 10, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033.  
Phone: +91 40 23351571, Fax: +91 40 23356573, Email: [investors@sagarments.in](mailto:investors@sagarments.in), Website: [www.sagarments.in](http://www.sagarments.in)

**STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024**

Sl. No.	Particulars	Standalone		Consolidated	
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended
		June 30, 2024 (Unaudited)	June 30, 2023 (Unaudited)	June 30, 2024 (Unaudited)	June 30, 2023 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	39,367	42,876	1,90,755	56,060
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(533)	(1,617)	4,501	(4,755)
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(533)	(1,617)	4,501	(4,755)
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(376)	(1,336)	3,117	(3,220)
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(400)	(1,336)	3,024	(3,243)
6	Paid-up Equity share capital (Face Value Rs. 2/- Per share)	2,614	2,614	2,614	2,614
7	Reserves excluding revaluation reserve as at Balance Sheet date	79,162	76,117	79,562	1,00,294
8	Securities Premium Reserve	88,351	88,351	88,351	88,351
9	Non-controlling interests	-	-	7,467	6,771
10	Net Worth	1,70,127	1,67,082	1,70,527	1,98,726
11	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	2,308	4,615	3,462	2,308
12	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	4,615
13	Debt Equity Ratio	0.30	0.35	0.28	0.74
14	Earnings per share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic and Diluted:	(0.29)	(1.02)	2.38	(2.46)
15	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-
16	Debt Redemption Reserve	-	-	-	-
17	Debt Service Coverage Ratio	0.94	0.66	1.41	0.68
18	Interest Service Coverage Ratio	2.30	1.69	2.97	1.52

**Notes:**

- The above standalone and consolidated un-audited financial results of Sagar Cements Limited ("the Company") as reviewed by the Audit Committee have been approved by the Board of Directors at its meeting held on July 18, 2024. The statutory auditors of the Company have issued an unmodified conclusion in respect of the limited review of the quarter ended June 30, 2024.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the web site of the Company at [www.sagarments.in](http://www.sagarments.in) and also on the website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For Sagar Cements Limited  
Sd/-  
Dr. S. Anand Reddy  
Managing Director

Place : Hyderabad  
Date : 18.07.2024

**FORM G**  
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR  
**ANKIT METAL & POWER LIMITED OPERATING IN METAL & STEEL INDUSTRY**  
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

**RELEVANT PARTICULARS**

1. Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/LLP No.	ANKIT METAL & POWER LIMITED PAN - AAECA5230B CIN - L27101WB2002PLC094979																
2. Address of the registered office	35, Chittaranjan Avenue, Kolkata, West Bengal 700012																
3. URL of website	<a href="https://www.ankitmetal.com/">https://www.ankitmetal.com/</a>																
4. Details of place where majority of fixed assets are located	35, Saltora Bankura Road, Jorehira Chhatna, Bankura, West Bengal, 722137																
5. Installed capacity of main products/services	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Product</th> <th>Installed Capacity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sponge Iron</td> <td>2,10,000 (MT)</td> </tr> <tr> <td>MS Billet</td> <td>1,80,000 (MT)</td> </tr> <tr> <td>Pellet</td> <td>6,00,000 (MT)</td> </tr> <tr> <td>TMT Bar/MS Round</td> <td>1,00,000 (MT)</td> </tr> <tr> <td>Wire Rod</td> <td>1,80,000 (MT)</td> </tr> <tr> <td>Pig Iron</td> <td>12,500 (MT)</td> </tr> <tr> <td>Captive Power Plant</td> <td>20 MW - VHRB (Waste Heat Recovery Based) 25.5 MW - AFBC (Atmospheric Fluidised Bed Combustion)</td> </tr> </tbody> </table>	Product	Installed Capacity	Sponge Iron	2,10,000 (MT)	MS Billet	1,80,000 (MT)	Pellet	6,00,000 (MT)	TMT Bar/MS Round	1,00,000 (MT)	Wire Rod	1,80,000 (MT)	Pig Iron	12,500 (MT)	Captive Power Plant	20 MW - VHRB (Waste Heat Recovery Based) 25.5 MW - AFBC (Atmospheric Fluidised Bed Combustion)
Product	Installed Capacity																
Sponge Iron	2,10,000 (MT)																
MS Billet	1,80,000 (MT)																
Pellet	6,00,000 (MT)																
TMT Bar/MS Round	1,00,000 (MT)																
Wire Rod	1,80,000 (MT)																
Pig Iron	12,500 (MT)																
Captive Power Plant	20 MW - VHRB (Waste Heat Recovery Based) 25.5 MW - AFBC (Atmospheric Fluidised Bed Combustion)																
6. Quantity and value of main products/services sold in last financial year	As per Annual Report, revenue from operations for F.Y. 2022-23 was INR 853.99 Crores, and as per Financial Results of Q3 of F.Y. 2023-24, revenue from operations for 9 months ended 31st December 2023 was INR 555.68 Crores. Please refer financials results of the corporate debtor available on website: <a href="https://www.ankitmetal.com/">https://www.ankitmetal.com/</a>																
7. Number of employees/workmen	The plant was operational till December 23 and as per salary sheet of December 23 provided by the erstwhile management of the corporate debtor the total no of Number of Employees / Workmen were 1,016.																
8. Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, list of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	Refer Investor's Corner tab on <a href="https://www.ankitmetal.com/investors.html">https://www.ankitmetal.com/investors.html</a> for Financial Statement. Refer CIRP tab on <a href="https://www.ankitmetal.com/">https://www.ankitmetal.com/</a> or send an email to <a href="mailto:IP.ankitmetal@gmail.com">IP.ankitmetal@gmail.com</a> for relevant dates and detailed Expression of Interest																
9. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Refer Expression of Interest (EOI) process document available under CIRP tab on <a href="https://www.ankitmetal.com/">https://www.ankitmetal.com/</a> or send an email to <a href="mailto:IP.ankitmetal@gmail.com">IP.ankitmetal@gmail.com</a>																
10. *Last date for receipt of expression of interest	July 27, 2024* (Extended from July 16, 2024)																
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	August 03, 2024																
12. Last date for submission of objections to provisional list	August 08, 2024																
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	August 17, 2024																
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	August 22, 2024 (subject to receipt of Non-Disclosure Agreement by Eligible PRAs)																
15. Last date for submission of resolution plans	September 21, 2024																
16. Process email id to submit Expression of Interest	<a href="mailto:IP.ankitmetal@gmail.com">IP.ankitmetal@gmail.com</a>																

\*Subject to ratification by the CoC.  
Note: The Prospective Resolution Applicants who had submitted the EOI in pursuance to the Form-G dated July 01, 2024 as published by the Sd/-Kshitiz Chawchharia (IBBI/PA-001/IP-P00358/2017-18/10616) Interim Resolution Professional

Date: 20 July 2024  
Place: Kolkata

For Ankit Metal & Power Limited E: [IP.ankitmetal@gmail.com](mailto:IP.ankitmetal@gmail.com), Registered with IBBI: C/O B.Chawchharia & Co BA & B, Satyam Tower 3, Alipore Road, Kolkata - 700027  
Email: [kshitiz@bcoonda.com](mailto:kshitiz@bcoonda.com), AFA valid till January 22, 2025

**BEML Land Assets Limited**  
CIN: U70109KA2021G0149486, Schedule 'C' Company under Ministry of Defence  
Registered Office: "BEML SOUDHA", 23/1, 4th Main Road, S

**उत्तर रेलवे**

**शुद्धिपत्र**

संदर्भ— j) निविदा सूचना संख्या 22/ 2024–2025 दिनांक 07/ 06/ 2024 दिनांक 08/ 06/ 2024  
 ii) निविदा संख्या 07241067A/ 30/ 08/ 2024 को देना है।

उपरोक्त निविदा को संदर्भ में, निविदा संख्या 07241067A खोलने को निगम तिथि 30/ 08/ 2024 से 08/ 08/ 2024 तक प्रौढीकृत कर दी गई है।

अन्य सभी नियम और शर्तें अनुबंधित रहेंगी।

शुद्धिपत्र वेबसाइट [www.irps.gov.in](http://www.irps.gov.in) पर प्रकाशित किया जा रहा है। 2191/2024

**ग्राहकों की सेवा में मुरकन के साथ**

**कैनरा बैंक Canara Bank**

**क्षेत्रीय कार्यालय: गाजियाबाद**

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वित्तीय संसर्पित और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन।

इस केनर बैंक, अपनी शाखा/प्रतिभूति अधिकारी द्वारा वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्वचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्वय 111 की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित तिथि को मांग सूचना जारी किया है। विषय यह है कि आपको द्वारा सूचना, खास आदि की कितने के अनुमान में पूरा हुई है। कच्चा जोड़े दिया गया है। आगे निम्नलिखित आधारकों/मालिक/गारंटीदारों को जारी की गई मांग सूचना किना सुधुली के पास हो करनी है। आपको यह सूचना देना मांग सूचना के प्रकाशित होने से 60 दिन की अवधि के भीतर कर-खास सहित उपर्युक्त राशि केनर बैंक को भुगतान करने के लिए अनिवार्य किया जात है। ऐसा न करने पर केनर बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15(4) के प्रावधानों के तहत आधारकों/मालिक/बैंकगारंटी/गारंटीदारों की प्रतिभूति आसितियों को कब्जा करने सहित सभी या किसी एक या अधिक प्रतिभूति आसितियों के विरुद्ध आवश्यक कर्तव्यों की लागूगी। आगे आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(1a) के तहत निम्नलिखित किसी भी प्रतिभूति आसित को विक्री, पट्टे या अन्यथा माध्यम से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

**शाखा: वैशाली, गाजियाबाद (3167)**

श्रीमती श्रीमती सुशीला शर्मा पत्नी श्री बंटेई शर्मा, 111 - एफ / 925, 926, सेक्टर- 3, वैशाली, गाजियाबाद।  
 श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री सुधा शर्मा, निवासी एफ-24, सेक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद।  
 श्रीमती सुशीला शर्मा पत्नी श्री बंटेई शर्मा, 111 - एफ / 927, भूमि तल, सेक्टर- 3, वैशाली, गाजियाबाद।  
 कुल देय रु. 8,10,492.18 (रुपये आठ लाख दस हजार चार सौ बत्तार और पैसा अठारह मात्र) दिनांक 30.06.2024 तक, Cersal Asset ID: 1000013401169, (एम्पली दिनांक 29.06.2024) और (नोटिफ दिनांक 05.07.2024)।

सम्पत्ति का विवरण: प्लॉट नं. 111 - एफ / 927 का इंग्रैड, भूमि तल, सेक्टर- 3, वैशाली, परजान लोबी, तहसील और जिला गाजियाबाद, विरसका सेक्टर 31.95 वर्ग मीटर, मालिक श्रीमती सुशीला शर्मा पत्नी श्री बंटेई शर्मा और चौधरी: उत्तर- 6 मीटर चौड़ा रोड, दक्षिण: प्लॉट नं. 914, पूर्व: प्लॉट नं. 926, पश्चिम: प्लॉट नं. 928.

**शाखा: डेहू टैक्स, गाजियाबाद (18897)**

श्रीमती श्री राम गोपाल पुत्र श्री फकीर चंद, मकान नंबर- 1128, गली नंबर- 07, नई बस्ती, प्रेम मैरिज होम के पास, पूरुवा मोड़, गाजियाबाद 201001, श्री अनिल कुमार पुत्र श्री राम गोपाल, मकान नंबर- 1128, गली नंबर- 07, नई बस्ती, पूरुवा मोड़, गाजियाबाद 201001, श्री राम गोपाल पुत्र श्री फकीर चंद, खसरा नंबर-305, पूरुवा, गाजियाबाद 201001, श्री अनिल कुमार के/ओफ कार्यालय कम्प्यूटर्ड एंड प्रिंटेड कॉपी- भी, बंदगांव गाजियाबाद।

श्री राम गोपाल पुत्र श्री फकीर चंद, मकान नंबर-183, जवाहरका कला, परजान- लोबी, प्लॉट- गाजियाबाद।  
 कुल देय रु. 2,16,122.34 (रुपये दो लाख सोलह हजार एक सौ बत्तार और पैसा बीस मात्र) दिनांक 30.06.2024 तक, Cersal Asset ID: 2000567441198, (एम्पली दिनांक 29.06.2024) और (नोटिफ दिनांक 05.07.2024)।

सम्पत्ति का विवरण: आवासीय प्लॉट पर निर्मित भूमि और इमारत का इंग्रैड, खसरा नं. 305, मोटोसला/गांव बुजना, परजान लोबी, तहसील और जिला गाजियाबाद, विरसका सेक्टर 100 वर्ग यादव, मालिक श्री राम गोपाल पुत्र श्री फकीर चंद और चौधरी: उत्तर- 10 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण: कमेरेस्ट सिंह की भूमि, पूर्व: बांके लाल का प्लॉट, पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति।

**शाखा: डेहू टैक्स, गाजियाबाद (18897)**

श्रीमती श्रीमती कमलेश पत्नी श्री कांति प्रसाद, मकान नंबर- 253, गली नंबर- 04, पूरुवा मोड़, मेरठ रोड, गाजियाबाद - 201001, श्रीमती डेमलता रानी पत्नी श्री जयन कुमार, 578, पूरुवा मोड़, अंबेडकर चौक के पास, गाजियाबाद - 201001, श्रीमती कमलेश पत्नी श्री कांति प्रसाद, मकान नंबर - 143 ए, खसरा नंबर -577, पूरुवा, गाजियाबाद - 201001.

कुल देय रु. 2,35,819.44 (रुपये दो लाख पैंसठ हजार आठ सौ उन्नीस और पैसा बीस मात्र) दिनांक 01.07.2024 तक, Cersal Asset ID: 200083427805, (एम्पली दिनांक 29.06.2024) और (नोटिफ दिनांक 06.07.2024)।

सम्पत्ति का विवरण: आवासीय मकान नं. 143 ए का इंग्रैड, खसरा नं. 577, सिंगल मॉडल मकान, मोहल्ला/गांव पूरुवा, परजान लोबी, तहसील और जिला गाजियाबाद, विरसका सेक्टर 30.97 वर्ग मीटर या 37.05 वर्ग यादव, मालिक श्रीमती कमलेश पत्नी श्री कांति प्रसाद और चौधरी: धर्मनंद का घर, दक्षिण: जय सिंह का घर, पूर्व: अन्य का घर, पश्चिम: 10 फीट चौड़ा रोड।

स्थान: गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, केनर बैंक

## "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

## पंजाब नैशनल बैंक



...भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

**सर्किल सख सेंटर, नोएडा**  
 एसएफ-12 जगत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गामा-1  
 ग्रेटर नोएडा गामा-1  
 ई-मेल: [cs8290@pnb.co.in](mailto:cs8290@pnb.co.in)

## अचल सम्पत्तियों की बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पटित वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आसितियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जरासाइनो को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूति क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, जो बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूति क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर "जहाँ है वहाँ है", "जो है वहाँ है" तथा "जो कुछ भी है वहाँ है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के समुच्च उल्लिखित के अनुसार होगी।

### प्रतिभूति आसितियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम (ए) शाखा का नाम / (बी) शाखा का नाम व पता	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण (स्वामी का नाम (सम्पत्ति/यों के बंधककर्ता))	A) सफेदी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि B) 30.09.2023 तिथि तक बकाया C) सफेदी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि D) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) आरक्षित मूल्य B) इंग्रैड/पट्टी जमा करने की अंतिम तिथि C) संचिदा वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूत लेनदार के संज्ञान में ऋणधारण का विवरण	अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नं.
1.	शा.का.: नोएडा सेक्टर-34 (123610) श्री नरेश कुमार पुत्र भगवती प्रसाद, मकान नंबर बी-313, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली-110096	1. पत्नी नंबर 178 एएसएफ, ब्लॉक-ए सेक्टर-ओमिफार्म-01 ग्रेटर नोएडा -201308 क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर (B) रु. 21.01 लाख + ब्याज एवं उर पर प्रभार (C) 20.02.2024 (D) भौतिक	A) 27.05.2021 (B) रु. 21.01 लाख + ब्याज एवं उर पर प्रभार (C) 20.02.2024 (D) भौतिक	(A) क्र.सं. 1 के लिए रु. 7.30 लाख क्रम सं. 2 के लिए रु. 7.30 लाख (B) क्र.सं. 1 के लिए रु. 0.73 लाख क्रम सं. 2 के लिए रु. 0.73 लाख (C) रु. 0.10 लाख	13.08.2024 को 11 बजे पूर्ण. से 4 बजे अप.	ज्ञात नहीं	सुभाष चन्‍दर जाटव मो.: 9121866087
	शा.सा.: भोपाल (डी.नं. 604400) कर्जदार: मेरस आद्युष कम्प्यूटिजेशन मेरस आद्युष कम्प्यूटिजेशन (गंगारवाड़) श्रीमती सीमा गुप्ता, हाउस नं. 1030, सेक्टर-15, सोनीपत, हरियाणा श्रीमती सीमा गुप्ता पत्नी श्री राजेश गुप्ता प्रॉप. (मेरस आद्युष कम्प्यूटिजेशन) हाउस नं. 1030, सेक्टर-15, सोनीपत, हरियाणा	1. वॉणिजिक संपत्ति जिसमें दुकान संख्या 21-22, प्रथम तल, युनिक शॉपिंग मॉल, मुखरल रोड, नगर परिषद मार्केट के पास, सोनीपत, हरियाणा शामिल है, जो पट्टी जाटन, मुखरल रोड, सोनीपत, हरियाणा में खसरा संख्या 2453/7133/7141/7142/6704/4816 वाले प्लॉट पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 50.24 वर्ग गज (45.9 वर्ग मीटर), सुपर एरिया लगभग 700 वर्ग फीट, कारपेट एरिया 452.18 वर्ग फीट है, जो श्रीमती सीमा गुप्ता के नाम पर है। निम्नानुसार सीमाबद्ध- पूर्व- गली- हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पश्चिम- कार्टिडोर 10 फीट, दक्षिण- दुकान नंबर 27, उत्तर- दुकान नंबर 23 2. वॉणिजिक संपत्ति जिसमें पहली मंजिल, युनिक शॉपिंग मॉल, मुखरल रोड, नगर परिषद मार्केट के पास, सोनीपत, हरियाणा में दुकान नंबर 23-24 शामिल है, जो पट्टी जाटन, मुखरल रोड, सोनीपत, हरियाणा में खसरा नंबर 2453/7133/7141/7142/6704/4816 वाले प्लॉट पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 46.05 वर्ग गज (42.1 वर्ग मीटर) है, सुपर एरिया लगभग 641.6 फीट, कारपेट एरिया 414.46 वर्ग फीट है, जो श्रीमती सीमा गुप्ता के नाम पर है। निम्नानुसार सीमाबद्ध- पूर्व- गली- हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पश्चिम- कार्टिडोर 10 फीट, दक्षिण- दुकान नंबर 22, उत्तर- दुकान नंबर 25 3. वॉणिजिक संपत्ति जिसमें पहली मंजिल, युनिक शॉपिंग मॉल, मुखरल रोड, नगर परिषद मार्केट के पास, सोनीपत, हरियाणा में दुकान नंबर 25-26 शामिल है, जो पट्टी जाटन, मुखरल रोड, सोनीपत, हरियाणा में खसरा नंबर 2453/7133/7141/7142/6704/4816 वाले प्लॉट पर है, जिसका क्षेत्रफल 41.86 वर्ग गज (38.27 वर्ग मीटर), सुपर एरिया लगभग 583.2 वर्ग फीट, कारपेट एरिया 376.74 वर्ग फीट है, जो श्रीमती सीमा गुप्ता के नाम पर है। सीमा निम्नानुसार है:- पूर्व- गली- हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पश्चिम- कार्टिडोर 10 फीट, दक्षिण- मीटर- हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, उत्तर- दुकान नंबर 24	A) 17.10.2013 (B) रु. 348.94 लाख + ब्याज एवं उर पर प्रभार (C) 17.01.2014 (D) भौतिक	(A) रु. 18.65 लाख (B) रु. 1.87 लाख (C) रु. 0.10 लाख	13.08.2024 को 11 बजे पूर्ण. से 4 बजे अप.	ज्ञात नहीं	सुभाष चन्‍दर जाटव मो.: 9121866087
	शा.सा.: नोएडा सेक्टर-34 (123610) श्री नरेश कुमार पुत्र भगवती प्रसाद, मकान नंबर बी-313, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली-110096	1. पत्नी नंबर 178 एएसएफ, ब्लॉक-ए सेक्टर-ओमिफार्म-01 ग्रेटर नोएडा -201308 क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर (B) रु. 21.01 लाख + ब्याज एवं उर पर प्रभार (C) 20.02.2024 (D) भौतिक	A) 27.05.2021 (B) रु. 21.01 लाख + ब्याज एवं उर पर प्रभार (C) 20.02.2024 (D) भौतिक	(A) क्र.सं. 1 के लिए रु. 7.30 लाख क्रम सं. 2 के लिए रु. 7.30 लाख (B) क्र.सं. 1 के लिए रु. 0.73 लाख क्रम सं. 2 के लिए रु. 0.73 लाख (C) रु. 0.10 लाख	13.08.2024 को 11 बजे पूर्ण. से 4 बजे अप.	ज्ञात नहीं	सुभाष चन्‍दर जाटव मो.: 9121866087

नियम एवं शर्तें: बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

- सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है जैसा है", "जो है वहाँ है" तथा "जो कुछ भी है वहाँ है" आधार पर की जा रही है।
- जहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूति आसितियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी को सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयनी अथवा वितोषण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- बिक्री ऑनलाइन, वेबसाइट <https://ebkgray.in> पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकों द्वारा की जाएगी।
- बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया <https://ebkgray.in> तथा [www.pnbndia.in](http://www.pnbndia.in) देखें।
- सभी वैधानिक बकाया / धाटेंटेड शुल्क / पंजीकरण शुल्क, स्टॉप शुल्क, वर / किसी भी प्राधिकरण शुल्क आदि सहित अन्य बकाया क्रेता द्वारा वहन किए जाने होंगे और प्राधिकृत अधिकारी या बैंक सरकार या किसी अन्य को संपत्ति (ई-नीलामी की जाने वाली) के संबंध में कोई अन्य बकाया है जो बैंक को ज्ञात नहीं है, किसी भी शुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देवदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली के बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के बारे में स्वयं जांच करें।

सफेदी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक: 19.07.2024 स्थान: ग्रेटर नोएडा

**पूर्वोत्तर रेलवे अधिसूचना**

श्री प्रणजोय सखसेना, रेल संरक्षक आयुक्त, उत्तर पूर्व सर्किल, लखनऊ, नागरिक एवं विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, दिनांक 21.07.2024 को प्रातः 11.00 बजे से मण्डल रेल प्रबंधक, कार्यालय (डी.आर.एच. मीटिंग हॉल), अशोक मार्ग, लखनऊ में गाड़ी सं. 15904 डा० चण्डीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का मोतीगंज-झिंझार रेलवे खण्ड पर दिनांक 18.07.2024 को पटरि से उतर जाने के प्रकरण की जांच करेंगे। यदि कोई नागरिक अपरोक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी या साक्ष्य देना चाहता है, तो वह अपरोक्त दिनांक को जाँच के समय उपस्थित होकर पूर्ण साक्ष्य दे सकता है अथवा रेल संरक्षक आयुक्त (उत्तर पूर्व सर्किल) लखनऊ को लिखित सूचना दे सकता है।

**मण्डल रेल प्रबंधक (संरक्षक), लखनऊ**

**राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के सभ्य कंपनी आवेदन संख्या सी.ए. (सी.ए.)-60/एनडी/2024**

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में;  
 और  
 धारा 66 के साथ धारा 230 से 232 के मामले में और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान;  
 और  
 उद्धार को योजना के मामले में निम्नलिखित के बीच

क्विटिलियन मीडिया लिमिटेड (प्रथम आवेदक कंपनी/हस्तांतरक कंपनी) और क्विंट डिजिटल लिमिटेड (द्वितीय आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच

क्विंट डिजिटल लिमिटेड के इन्वितरी श्रेयधारकों की बैठक की सूचना का विज्ञापन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 11 जुलाई 2024 (पौषणा को तिथि) के आदेश द्वारा, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ('एनसीएलटी') की नई दिल्ली पीठ ने कंपनी आवेदन संख्या सी.ए. (सी.ए.) संख्या 60/एनडी/2024 ('पुनरा') से निर्दिष्ट दिनांक है कि क्विंट डिजिटल लिमिटेड के इन्वितरी शेयरधारकों को एक बैठक आयोजित की जाए, जिसमें विचार किया जाए और यह उचित समझा जाए तो, क्विंटिलियन मीडिया लिमिटेड ('ब्यूरोपटल') या 'ट्रान्स्फर (कंपनी)' के साथ विलय (अवशेषक के माध्यम से) के उद्धार को योजना को मंजूरी देने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधनों के साथ या बिना अनुमोदन किया जाए और क्विंट डिजिटल लिमिटेड ('ब्यूरोपटल') या 'ट्रान्स्फर (कंपनी)' और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों ('शेयरन') को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ धारा 230-232 के अनुसार जानकारी दी जाए। उक्त आदेश के अनुसार सभी ने तथा उम्मीद किए गए निर्देशों के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि क्विंट डिजिटल लिमिटेड के इन्वितरी शेयरधारकों की बैठक शनिवार, 24 अगस्त, 2024 को सुबह 11:00 बजे (चा.मा.स.) चौधरी कर्मप्रतिग के माध्यम से निर्गट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग की सुविधा के साथ आयोजित की जाएगी, जिसमें सारा उक्त इन्वितरी शेयरधारकों से उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है। कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:

- राष्ट्रीय बैठक निर्गट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ चौधरी कर्मप्रतिग के माध्यम से और माननीय एनसीएलटी द्वारा पठित आदेश, कॉर्पोरेट कार्य संवहल ('एनसीएलटी') द्वारा जारी दिना-निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति अधिनियम और निम्नलिखित दिनांक और प्रकटित/अवशेषक/विनिर्माण, 2015 ('सीडीएलएल विनिर्माण') और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार ई-वोटिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है।
- राष्ट्रीय बैठक की सूचना व्यवस्थापक विवरण और अधिकृत अनुलोकनों के साथ हस्तांतरिती कंपनी के उन सभी इन्वितरी शेयरधारकों को भेजा दी गई है, जिनके नाम 12 जुलाई, 2024 तक कंपनी डिजिटल/ऑनलाइन/ऑनलाइन और ट्रांसफर पट्टे द्वारा प्रवर्धित सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। नोटिफ 19 जुलाई, 2024 को ईमेल के माध्यम से उनके पास भेजे गये हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिजिटल / रजिस्टर और ट्रांसफर पट्टे के साथ पंजीकृत हैं और 19 जुलाई, 2024 को पंजीकृत डाक द्वारा, जिनके ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं।
- यदि कोई शेयरधारक को सूचना व्यवस्थापक विवरण और अधिकृत अनुलोकनों के साथ उक्त नोटिस की एक प्रकृत कंपनी की वेबसाइट <https://quintdigitalmedia.com> और नैटल डिजिटल/ऑनलाइन (इंटरनेट) लिमिटेड ('सीडीएलएल विनिर्माण') की वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) के संबंधित अनुप्रयोग पर उपलब्ध कराई गई है।
- नोटिफ निर्गट ई-वोटिंग के माध्यम से जो जा सकती है जो बैठक से पहले निर्धारित समय अर्ध के दौरान उपलब्ध होगी उता कि नीचे दिया गया है और ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बैठक के दौरान उपलब्ध होगा:

ई-वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि बुधवार, 21 अगस्त, 2024 को 9:00 बजे अप. भा.मा.स.  
 ई-वोटिंग समाप्ति की तिथि शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को 5:00 बजे अप. भा.मा.स.

निर्गट ई-वोटिंग, बैठक की तिथि पर ई-वोटिंग और चौधरी कर्मप्रतिग के माध्यम से बैठक में भाग लेने से संबंधित विवरण निर्गट बैठक के नोटिस में दिए गए हैं।

- वोटिंग की सुविधा से जुड़ी सभी लिखावटें श्री रमेश दलवी, सौम्यर मैनेजर, सेंट्रल डिजिटल/ऑनलाइन सर्विसेज (इंटरनेट) लिमिटेड, ए.पि. 25वीं मंजिल, मेधापथ सुपरप्लेक्स, मण्डलमल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश, जिला मीर, लोअर फ्लोर (पूर्व), मुंबई-400013 को संबोधित की जा सकती है या [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर ईमेल भेजा या टेली नंबर 1800 22 5533 पर कॉल करें।
- उक्त नोटिस, व्यवस्थापक विवरण और अन्य जानकारी योजना की योजना की प्रति अपेक्षित अनुलोकनों के साथ निरगट डिजिटल लिमिटेड के पंजीकृत नववालेन 4023, प्रभात विहार, 17 राठौट एरिया, नई दिल्ली-110 006 को संभवतः वे शुक्रवार 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच बैठक की तिथि तक नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती है या क्विंट डिजिटल लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि को ईमेल द्वारा [cs@quint.com](mailto:cs@quint.com) पर प्राप्त की जा सकती है।
- क्विंट हस्तांतरिती कंपनी के इन्वितरी शेयरधारकों की बैठक निर्गट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ चौधरी कर्मप्रतिग के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए बैठक के लिए प्रकृत की सुविधा की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- माननीय एनसीएलटी ने भी विवरणित क्विंट को अध्यक्ष तथा सी विलियम पटेल, अधिकृत को बैठक के लिए जांचकर्ता नियुक्त किया है। यह उक्त योजना को बैठक द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो वह माननीय एनसीएलटी के धार के अनुमोदन के अधीन होगी।

हस्ता./- विवरणित अतिरिक्त बैठक के अध्यक्ष

दिनांक 19 जुलाई 2024

**एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड**

(पूर्व में फुलटैन् इण्डिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

कॉर्पोरेट कार्यालय: 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेनर मैरिसेटी, बाबा कुर्ना कॉम्प्लेक्स, बादा (ई), मुंबई - 400091

**मांग-सूचना**

वित्तीय संसर्पितों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("विधियम") के प्रावधानों के तहत अचोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलटैन् इण्डिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पटित, अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया गया है, जिसमें निम्नलिखित उपरोक्त/शर्तों को उक्त नोटिस के प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संचिध नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का काल किया गया है। अचोहस्ताक्षरी यथावधि रूप से मानते हैं कि उपरोक्त/शर्तों (सूचनाओं) को प्राप्त करने से क्या करेंगे है, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की सेवा को चिकाकर और प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। मांग नोटिस (सूचनाओं) की सामग्री यहां नीचे दी गई है:

उधारकर्ता(ओं)/कागनी/उत्तरदायिनी(ओं) का नाम	दिनांक नोटिस दिनांक राशि	बंधक अचल संपत्ति का विवरण
1.सिम्पकारी इंडीजियरिंग वर्क्स। 2.पंजीव धीमान धीमान। 3.धर्मर धीमान। 4.योगर कुमार धीमान।	15 जुलाई, 2024. 04 जुलाई, 2024 तक रु. 2,52,09,359/- (दो करोड़ बावन लाख तीन सौ सप्तसठ रुपये मात्र)	संपत्ति के मालिक- श्री धर्मर धीमान, श्री योगेश्वर धीमान और श्री संजीव कुमार धीमान। स्क्वैल ब्लॉक- 11, आवासीय कॉलोनी शकपुर दिल्ली में स्थित खसरा संख्या 102 में संपत्ति का एक हिस्सा, मकान संख्या एस-602, क्षेत्रफल 190 वर्ग गज, अंतिम मंजिल तक ऊपरी निर्माण का अधिकार वाली संपत्ति का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश।

उधारकर्ता(ओं)/कागनी/उत्तरदायिनी(ओं) का नाम	दिनांक नोटिस दिनांक राशि	बंधक अचल संपत्ति का विवरण
1.पंकज कपूर 2.यानी कपूर 3.शशि कपूर 4.देवपानी मेटलस प्राइवेट लिमिटेड	12 जुलाई, 2024 04 जुलाई, 2024 तक ₹ 53,06,462/- (रुपये तिरपन लाख पांच हजार चार सौ बत्तार मात्र)	संपत्ति की मालिक - श्रीमती शशि कपूर। खसरा संख्या 462/43 में से, गली नंबर 5 सुभाष पार्क इलाका शाहपुरा दिल्ली की आबादी में उल्थानपुर यांच के क्षेत्र में स्थित बिना छत के अधिकार के निर्मित ऊपरी मूलत वाले संपत्ति का वह संपूर्ण टुकड़ा और अंश , उक्त संपत्ति का तल माग जिसका क्रमांक 1/ 11029 है, प्लॉट संख्या 4-बी पर निर्मित , जिसका क्षेत्रफल 130 वर्ग गज है। निम्नलिखित चौधरीय से घिरा हुआ है: पूर्व - 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम - दूसरों की संपत्ति, उत्तर - दूसरों की संपत्ति, दक्षिण - दूसरों की संपत्ति।

उधारकर्ता(ओं) को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस (सूचनाओं) का पालन करें और इसमें पूरे इच्छा के ऊपर उल्लिखित मांग राशि के ताला भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और अन्य का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर करें। उधारकर्ताओं को यह नोट कर कि एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट एक सुरक्षित लेनदार है और अपनी द्वारा जो गई ऋण सूचीय अवल संपत्तिसंपत्तियों को प्रति एक सुरक्षित ऋण है जो उधारकर्ता (ओं) द्वारा निर्देश रची गई सुरक्षित संपत्ति है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर पूरी तरह से अपनी देवदारियों का निर्वहन करने में सफल रहता है, तो एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें संपत्ति संपत्ति (ओं) का कब्जा शामिल है, लेकिन बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उरसके तहत उपलब्ध नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करने और भुगतान की अनुमति तक सीमित नहीं है। एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकांश की पूर्ण सुरक्षा करने से पहले सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को संलग्न और ४ या सील क्रेडिट को भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट को भी बकाया राशि की वसूली के लिए अपना कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है, यदि निरकी रची गई संपत्तियों का मूल्य एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट को देय देना शक्य हो तो काल करने के लिए उपलब्ध है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त कर सकते हैं।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(6) की और, उपलब्ध समय के संबंध में, प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुगतने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की प्रति आकर्षित किया जाता है जिसके तहत उधारकर्ता (ओं) को एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट की पूर्ण लिखित सममति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को धरने या प